



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1944 (श10)
(सं० पटना 781) पटना, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022

सं० बी01-3-43/2021-3777
निर्वाचन विभाग

संकल्प

पटना दिनांक 27 सितम्बर, 2022 ई०।

विषय:-बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज़(ड) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत एजेंसी मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता को नयी विशिष्टियों युक्त PVC-EPIC (होलोग्राम सहित) के स्थान पर अन्य विशिष्टियों युक्त PVC-EPIC (होलोग्राम रहित) के मुद्रण के लिये ₹9.00 (नौ रुपये) मात्र प्रति अदद भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/EPIC Security/2021-ERS दिनांक-05.10.2021 द्वारा निर्धारित नई विशिष्टियों यथा Ghost Image, Micro-text, QR Code, Hologram, Invisible logo के साथ ईपिक निर्माण जनवरी, 2022 से किये जाने का निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता के पत्रांक SPL/21/69 दिनांक 01.10.2021 द्वारा नई विशेषताओं के साथ प्रति ईपिक मुद्रण एवं निर्माण कार्य कराने एवं पता मुद्रित लिफाफा में तैयार EPIC को रखकर जिला तक पहुँचाने की दर यथा i) PVC Card @Rs. 9.50/Card ii) Letter @ Rs. 1.25/letter and iii) Plastic envelop @ Rs. 3.50/envelop. अर्थात् एक PVC-EPIC निर्माण की लागत दर कुल राशि ₹14.25/- (चौदह रुपये पच्चीस पैसे) मात्र एवं GST दर अतिरिक्त है, जिसपर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131ज़(ड) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.02.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०-04 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-376 दिनांक-02.02.2022 निर्गत की गई है।

2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नए विशेषताओं से युक्त PVC EPIC की विशिष्टियाँ दिनांक 01.02.2022 तक भी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद सितम्बर 21 से दिनांक 05.01.2022 तक लंबित लगभग 14 लाख ईपिक निर्माण मेसर्स सरस्वती प्रेस, कोलकाता से कराने का कार्य प्रारंभ किया गया। दिनांक 10.04.2022 तक कुल 1344281 ईपिक का निर्माण कराकर डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्वाचकों को उपलब्ध कराया जा चुका है। कार्य संपन्न होने के उपरांत मेसर्स सरस्वती प्रेस द्वारा ईपिक निर्माण के भुगतान हेतु विपत्र समर्पित किया गया है। परन्तु मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता के द्वारा ₹9.00/- प्रति अदद अन्य विशिष्टियों युक्त PVC EPIC (होलोग्राम रहित) निर्माण का कार्य किया गया, जबकि

नयी विशिष्टियों युक्त PVC EPIC (होलोग्राम सहित) के निर्माण पर ₹9.50/- प्रति अदद की दर पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 01.02.2022 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उक्त स्थिति पर वित्त विभाग द्वारा नयी विशिष्टियों युक्त PVC-EPIC (होलोग्राम सहित) के स्थान पर अन्य विशिष्टियों युक्त PVC-EPIC (होलोग्राम सहित) के मुद्रण किये जाने के कारण नियमानुसार मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति पुनः प्राप्त किए जाने का परामर्श दिया गया है।

4. वित्त विभाग के उपर्युक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम 131(ड) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत एजेंसी मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता को नयी विशिष्टियों युक्त PVC-EPIC (होलोग्राम सहित) के स्थान पर अन्य विशिष्टियों युक्त PVC-EPIC (होलोग्राम सहित) के मुद्रण के लिये ₹9.00 (नौ रुपये) मात्र प्रति अदद भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या- 16 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
—सह—प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 781-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>